



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05122023-250428  
CG-DL-E-05122023-250428

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4941]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 5, 2023/अग्रहायण 14, 1945

No. 4941]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 5, 2023/AGRAHAYANA 14, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(एसईजेड अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 2023

का.आ. 5166(अ).— यतः, मै. कनाई टेक्नोलॉजी पार्क प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में मेसर्स वेलंकनी टेक्नोलॉजी पार्क प्राइवेट लिमिटेड) ने तमिलनाडु राज्य में श्रीपेरुम्बुदूर, कांचीपुरम, चेन्नई जिला में इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सहित सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था ;

और, यतः केन्द्र सरकार ने, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 2118(अ) दिनांक 11 दिसम्बर, 2007 द्वारा उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन में 57.46715 हेक्टेयर के क्षेत्र को अधिसूचित किया था;

और यतः, मै. कनाई टेक्नोलॉजी पार्क प्राइवेट लिमिटेड ने अब उक्त विशेष आर्थिक जोन के 57.46715 हेक्टेयर के सम्पूर्ण क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और यतः, तमिलनाडु सरकार ने उनके पत्र संख्या 4512188/एमआईबी.1/2023 दिनांक 31 जुलाई, 2023 के तहत प्रस्ताव को अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है। अनधिसूचना के बाद, भूमि पार्सल का उपयोग तमिलनाडु सरकार के भूमि दिशानिर्देशों/मास्टर प्लान के अनुरूप होगा;

और यतः, विकास आयुक्त, मद्रास विशेष आर्थिक जोन ने उक्त विशेष आर्थिक जोन के 57.46715 हेक्टेयर के सम्पूर्ण क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की है;

अतः अब केन्द्र सरकार, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के प्रथम परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा उक्त अधिसूचना को इस उत्सादन से पूर्व किए गए कार्यों या किए जाने के लिए लोपित को छोड़कर, रद्द करती है।

[फा. सं. फ. 2/54/2006-एसईजेड]

विपुल बंसल, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

**(Department of Commerce)**

**(SEZ DIVISION)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th December, 2023

**S.O. 5166(E).**—Whereas, M/s. Kanai Technology Parks Private Limited (formerly M/s. Velankani Technology Parks Private Limited) had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a Special Economic Zone for Electronic Hardware and Software including Information Technology Enabled Services SEZ at Sriperumbudur, Kanchipuram District, Chennai, in the State of Tamil Nadu;

And, whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, notified an area of 57.46715 hectares at the above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notification Number S.O. 2118(E) dated 11<sup>th</sup> December, 2007;

AND, WHEREAS, M/s. Kanai Technology Parks Private Limited has now proposed to de-notify the entire area of 57.46715 hectares of the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Tamil Nadu has given No Objection Certificate to the proposal vide letter No. 4512188/MIB.1/2023 dated 31<sup>st</sup> July, 2023. Further, the land parcels after de-notification will conform to Land Guidelines/master plans of the Government of Tamil Nadu;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, Madras Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of entire area of 57.46715 hectares of the Special Economic Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by first proviso to rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, the Central Government hereby rescinds the above notification except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. F.2/54/2006-SEZ]

VIPUL BANSAL, Jt. Secy.